

Ezr

Chapter 9

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
וּכְכֹלֹתַי וְהָאֱלֹהִים נִגְשָׁו אֵלַי הַשָּׂרִים לְאֹמֵר לֹא-נָבְדָלֹו הָעָם יִשְׂרָאֵל
और-जब-पूरी-हुई और-बातों आएं मेरे-पास हाकिम यह-कहते-हुए नहीं अलग-हुए-हैं लोग इस्राएल-के
H3615 H0428 H5066 H0413 H8269 H0559 H3808 H0914 H3478

וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם מֵעַמִּי הָאֲרָצוֹת וְהָאֱמֹרִי:
और-याजक और-लेवीय लोगों-से देशों-के देशों-के और-एमोरी-की
H3548 H3881 H0776 H8441 H2850 H6522

וְהַיְבוּסִי הָעַמּוֹנִי הַמִּצְרִי מוֹאָבִי הַמִּסְרִי
यबूसी-की अम्मोनी-की मोआबी-की मिस्री-की
H2983 H5984 H4125 H4713 H0567

जब हम लोग यह सब कर चुके तब इस्राएल के प्रमुख मेरे पास आए। उन्होंने कहा, “एज्जा इस्राएल के लोगों और याजकों तथा लेवीवंशियों ने अपने चारों ओर रहने वाले लोगों से अपने को अलग नहीं रखा है। इस्राएल के लोग कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्र के लोगों और एमोरियों द्वारा की जाने वाली बहुत सी बुरी बातों से प्रभावित हुए हैं।”

2
כִּי-וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה
क्योंकि और-अपने-पुत्रों-के-लिए अपने-लिए उनकी-बेटियों-में-से-कुछ-पत्नियों-के-रूप-में उन्होंने-ली-हैं क्योंकि
H5375 H1323 H1992 H6148

וְהָיָה
अपराध-में रहा-है और-अधिकारियों-का हाकिमों-का और-हाथ-वास्तव-में उन-देशों-के लोगों-के-साथ पवित्र वंश
H2233 H6944 H0776 H8269 H3027 H1961 H5461 H4604

וְהָיָה
इस प्रथम
H2088 H7223

इस्राएल के लोगों ने अपने चारों ओर रहने वाले अन्य जाति के लोगों से विवाह किया है। इस्राएल के लोग विशेष माने जाते हैं। किन्तु अब वे अपने चारों ओर रहने वाले अन्य लोगों से मिलकर दोगले हो गये हैं। इस्राएल के लोगों के प्रमुखों और बड़े अधिकारियों ने इस विषय में बुरे उदाहरण रखे हैं।”

3
וּכְשָׁמַעִי אֶת-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה
तब-जब-मैंने-सुना और-मैंने-नोचे और-अपना-चोगा अपना-वस्त्र -- मैंने-फाड़ा यह बात -- तब-जब-मैंने-सुना
H8085 H0853 H1697 H2088 H7167 H0853 H4803

מְשַׁעַר מִשְׁעָר וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה
कुछ-बाल अपने-सिर-के और-दाढ़ी-के और-मैं-बैठा विस्मित
H8181 H2206 H3427 H8074

जब मैंने इस विषय में सुना, मैंने अपना लबादा और अंगरखा यह दिखाने के लिये फाड़ डाला कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच डाले। मैं दुःखी और अस्त व्यस्त बैठ गया।

4
וְהָיָה
अपराध-के कारण इस्राएल-के परमेश्वर-के वचनों-से जो-काँपते-थे सब इकट्ठे-हुए और-मेरे-पास
H0413 H0622 H3605 H2730 H1697 H0430 H3478 H4604

וְהָיָה
सांझ-के बलिदान जब-तक विस्मित बैठा-रहा और-मैं बंदी-किए-गए-लोगों-के
H1473 H0589 H3427 H8074 H5704 H4503 H6153

तब हर एक व्यक्ति जो इस्राएल के परमेश्वर के नियमों का आदर करता था, भय से काँप उठा। वे डर गए क्योंकि जो इस्राएल के लोग बन्धुवाई से लौटे, वे परमेश्वर के भक्त नहीं थे। मुझे धक्का लगा और मैं घबरा गया। मैं वहाँ सन्ध्या की बलि भेंट के समय तक बैठा रहा और वे लोग मेरे चारों ओर इकट्ठे रहे।

עֲלֵינוּ हम-पर	וַיֵּט पर-उसने-बढ़ाई	אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-ने	עֲזָבָנוּ त्यागा-हमें	לֹא नहीं	וּבְעַבְדָּתָנוּ पर-हमारी-दासता-में	אֲנַחְנוּ हम-थे	עֲבָדִים दास	כִּי क्योंकि
	H5186	H0430		H3808	H5659	H0587	H5650	

אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-के	בֵּית भवन	אֶת- --	לְרוֹמָם मरम्मत-करने-को	מְחִיָּה जीवन	לָנוּ हमें	לְתַת- देने-को	פָּרָס फारस-के	מַלְכֵי राजाओं-के	לְפָנָי दृष्टि-में	קָדָר दया
H0430		H0853		H4241		H5414	H6539	H4428	H6440	

ס	וּבִירוּשָׁלַם: और-यरूशलेम-में	ס	בֵּיהוּדָה यहूदाह-में	גֵּר दीवार	לָנוּ हमें	וּלְתַת- और-देने-को	חָרְבָתָיו उसके-खंडहर	אֶת- --	וּלְהַעֲמִיד और-खड़ा-करने-को
	H3389		H3063	H1447		H5414	H2723	H0853	H5975

हाँ, हम दास थे, किन्तु तू हमें सदैव के लिए दास नहीं रहने देना चाहता था। तू हम पर कृपालु था। तूने फारस के राजाओं को हम पर कृपालु बनाया। तेरा मन्दिर ध्वस्त हो गया था। किन्तु तूने हमें नया जीवन दिया जिससे हम तेरे मन्दिर को फिर बना सकते हैं और नये की तरह पक्का कर सकते हैं। परमेश्वर, तूने हमें यरूशलेम और यहूदा की रक्षा के लिये परकोटे बनाने में सहायता की।

מִצְרַיִם: तेरी-आज़ाएँ	עֲזָבָנוּ हमने-त्याग-दिए-हैं	כִּי क्योंकि	זֶאת इसके	אֲחֵרֵי- बाद-में	אֱלֹהֵינוּ हे-हमारे-परमेश्वर	נֹאמַר हम-कहें	מָה- क्या	וְעַתָּה अब
H4687			H2063		H0430	H0559	H4100	H6258

“हमारे परमेश्वर, अब हम तुझसे क्या कह सकते हैं? हम लोगों ने तेरी आज़ा का पालन करना फिर छोड़ दिया है।

אֶרֶץ —	צְרִיף —	בֵּיר —	עֲבָרְיָה —	הַנְּבִיאִים —	לְאֹמְרֵי —	הָאֶרֶץ —	אֲשֶׁר —	אַתֶּם —	בְּאִים —	לְרִשְׁתָּהּ —	אֶרֶץ —
H0776	H3423	H0935		H0776	H0559	H5030	H5650	H3027	H6680		

מְלֹאָה भर-दिया-है-उसे	אֲשֶׁר जिन्होंने	בְּתוֹעֲבֹתֵיהֶם उनकी-घृणित-बातों-के-साथ	הָאֶרְצוֹת देशों-के	עַמֵּי लोगों-की	בְּנֻחָת अशुद्धता-के-साथ	הִיא है	גְּדָה —
H4390		H8441	H0776		H5079	H1931	H5079

בְּטֻמְאַתָּם: उनकी-अशुद्धता-से	פָּה दूसरे-छोर-तक	אֶל- की-और	מִפֶּה एक-छोर-से
H2932	H6310	H0413	H6310

हमारे परमेश्वर, तूने अपने सेवकों अर्थात् नबियों का उपयोग किया और उन आदेशों को हमें दिया। तूने कहा था: 'जिस देश में तुम रहने जा रहे हो और जिसे अपना बनाने जा रहे हो, वह भ्रष्ट देश है। यह उन बहुत बुरे कामों से भ्रष्ट हुआ है जिन्हें वहाँ रहने वालों ने किया है। उन लोगों ने इस देश में हर स्थान पर बहुत अधिक बुरे काम किये हैं। उन्होंने इस देश को अपने पापों से गंदा कर दिया है।

תִּשְׂאוּ लेना	אֶל- न-ही	וּבְנֵי־הָאֱלֹהִים और-उनकी-बेटियों	לְבָנֵיהֶם उनके-पुत्रों-के-लिए	תִּתְּנֵנּוּ देना-पत्नियों-के-रूप-में	אֶל- मत	בְּנֵי־הָאֱלֹהִים अपनी-बेटियों	וְעַתָּה अब-इसलिए
H5375	H0408	H1323		H5414	H0408	H1323	H6258

תְּחַזְקֵנּוּ तुम-शाक्तिशाली-हो	לְמַעַן ताकि	עוֹלָם सदा	עַד- तक	וְטוֹבָתָם या-भलाई	שְׁלָמָם उनकी-शांति	תְּדַרְשׁוּ मांगना	וְלֹא- और-कभी-नहीं	לְבָנֵיהֶם अपने-पुत्रों-के-लिए
H2388	H4616	H5769	H5704		H7965	H1875	H3808	

עוֹלָם: सदा	עַד- तक	לְבָנֵיהֶם अपने-बच्चों-के-लिए	וְהוֹרְשָׁתָם और-विरासत-में-छोड़ो	הָאֶרֶץ देश-की	טוֹב अच्छाई	אֶת- --	וְאַבְלָתָם और-खाओ
H5769	H5704		H3423	H0776	H2898	H0853	H0398

अतः इस्राएल के लोगों, अपने बच्चों को उनके बच्चों से विवाह मत करने दो। उनके साथ सम्बन्ध न रखो! और उनकी वस्तुओं की लालसा न करो! मेरे आदेशों का पालन करो जिससे तुम शाक्तिशाली होगे और इस देश की अच्छी चीजों का भोग करोगे। तब तुम इस देश को अपना बनाये रखोगे और अपने बच्चों को दोगे।

הַגְּדֹלָה बड़े	וּבְאִשְׁמֹתָנוּ और-हमारे-दोष-के-कारण H0819	הַרְעִים बुरे	בְּמַעֲשֵׂינוּ हमारे-कामों-के-कारण H4639	עָלֵינוּ हम-पर	הָבֵא जो-आया-है H0935	כָּל- सब H3605	וְאַחֲרָי और-बाद-में	
פְּלִיטָה छुटकारा H6413	לָנוּ हमें	וְנָתַתָּה और-दिया-है H5414	מִעֲוֹנוֹ हमारे-अपराधों-के-योग्य-से H5771	לְמִטָּה कम H4295	חֲשָׁתָךְ दंड-दिया-है-हमें H2820	אֱלֹהֵינוּ हे-हमारे-परमेश्वर H0430	אֲתָה तूने	כִּי जबकि

כִּזְאֵת:

ऐसा

H2063

“जो बुरी घटनायें हमारे साथघटीं वे हमारी अपनी गलतियों से घटीं। हम लोगों ने पाप के काम किये हैं और हम लोग बहुत अपराधी हैं। किन्तु हमारे परमेश्वर, तूने हमें उससे बहुत कम दण्ड दिया है जितना हमे मिलना चाहिये। हम लोगों ने बड़े भयानक काम किये हैं और हम लोगों को इससे अधिक दण्ड मिलना चाहिये। ऐसा होते हुए भी तूने हमारे लोगों में से कुछ को बन्धुवाई से मुक्त हो जाने दिया है।

הָלֹא क्या-तू-नहीं H3808	הֲאֵלֶּה ये H0428	הַתְּעֵבוֹת घृणित-बातें H8441	בְּעַמִּי लोगों-से-जो-करते-हैं	וְלִהְתַּחַתָּן और-विवाह-करें	מִצֹּתְיָךְ तेरी-आज्ञाएँ H4687	לְהַפְרֵן तोड़ें	הַנְּשׁוּב क्या-हम-फिर-से H7725
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------------

פ פ	וּפְלִיטָה: या-बचा-हुआ H6413	שְׂאֵרִית शेष H7611	לְאִין ताकि-न-हो H0369	כָּלֶּה तूने-नाश-कर-दिया-होता-हमें H3615	עַד- जब-तक H5704	בְּנוֹ हम-पर	הַתְּאַנְף- क्रोधित-होगा H0599
--------	------------------------------------	---------------------------	------------------------------	--	------------------------	-----------------	--------------------------------------

अतः हम जानते हैं कि हमें तेरे आदेशों को तोड़ना नहीं चाहिये। हमें उन लोगों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। वे लोग बहुत बुरे काम करते हैं। परमेश्वर यदि हम लोग उन बुरे लोगों के साथ विवाह करते रहे तो हम जानते हैं कि तू हमें नष्ट कर देगा। तब इस्राएल के लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा।

הַנְּנוּ देख-हम H2009	הַזֶּה यह H2088	כְּהַיּוֹם जैसा-दिन H3117	פְּלִיטָה शेष-के-रूप-में H6413	גִּשְׁאָרָנוּ हम-बचे-हैं H7604	כִּי- क्योंकि	אֲתָה तू-है	צְדִיק धर्मी H6662	יִשְׂרָאֵל इस्राएल-का H3478	אֱלֹהֵי परमेश्वर H0430	יְהוָה यहीवाह H3068
-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------

פ פ	זָאת: इसके H2063	עַל- कारण	לְפָנֶיךָ तेरे-साम्हने H6440	לְעֲמוֹד खड़ा-हो-सकता H5975	אִין कोई-नहीं H0369	כִּי यद्यपि	בְּאִשְׁמֹתֵינוּ हमारे-दोष-में H0819	לְפָנֶיךָ तेरे-साम्हने H6440
--------	------------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------	--	------------------------------------

“यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर, तू अच्छा है! और तू अब भी हम में से कुछ को जीवित रहने देगा। हाँ, हम अपराधी हैं! और अपने अपराध के कारण हम में किसी को भी तेरे सामने खड़े होने नहीं दिया जाना चाहिये।”